

From,

Subhash Chandra Maurya
Addl. District & Session Judge/F.T.C.-02
Allahabad.

To,

The Registrar General
Hon'ble High Court
Allahabad.

Through:- District Judge
Allahabad.

Subject:- Permission for purchasing of residential plot by my wife Smt. Shalini.

Sir,

On the aforesaid subject I have the honour to submit that my wife Smt. Shalini who has been in Government Job since 2005 and is presently posted as Lecturer in G.G.I.C. Kharwain, Pratapgarh, wants to purchase plot no. D251 Shantipuram Colony of P.D.A. from registered owner Sri A.K. Srivastava Rtd. under secretary U.P.P.S.C. U.P. for Rs.-47 lacs. She is taking loan of about Rs.-36 lacs from S.B.I. and an amount of Rs.- 13 lacs has been transferred to her account by my father through RTGS.

I have further to submit that Sri Srivastava has agreed to execute sale deed in the month of July, 2021.

The entire amount of consideration shall be paid through cheque at the time of execution of deed.

I, therefore, request you to kindly permit my wife Smt. Shalini to get the sale deed executed accordingly.

I shall remain faithful.

Yours faithfully

Date-12-07-2021

S.C. Maurya 12/07/2021
(Subhash Chandra Maurya)
Addl. District & Session Judge/
F.T.C.-02, Allahabad.

Enclosure-

1. Agreement to sale
2. Application for Loan
3. Possession Letter/Allotment Letter
4. Photocopy of Passbook
5. Salary Statement of my wife Smt. Shalini

Office of the District Judge, Allahabad
Letter No. 1999) Dated 12/7/2021

Forwarded.

District Judge, Allahabad

12.7.2021

विक्रय अनुबन्ध विलेख (बिना कब्जा)

अजय कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्वर्गीय जगत लाल एवं श्रीमती अनिता श्रीवास्तव पत्नी श्री अजय कुमार श्रीवास्तव निवासीगण फ्लैट संख्या टी0-III/3, टी0बी0 कालोनी, तेलियरगंज, परगना व तहसील-सदर, जिला-प्रयागराज, जिन्हें विलेख में आगे प्रथमपक्ष/अनुबन्धकर्ता से सम्बोधित किया गया।


.....प्रथमपक्ष/अनुबन्धकर्ता

बहक

श्रीमती शालिनी पत्नी सुभाष चन्द्र मौर्य निवासिनी जे-13, जूही कालोनी, म्योर रोड, परगना व तहसील-सदर, जिला-प्रयागराज, जिन्हें विलेख में आगे द्वितीयपक्ष/अनुबन्धग्रहीता से सम्बोधित किया गया।

.....द्वितीयपक्ष/अनुबन्धग्रहीता

जो कि इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, प्रयागराज (वर्तमान प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज) द्वारा नियमानुसार भूखण्ड संख्या डी0-251, सेक्टर-डी0 शान्तिपुरम् आवास योजना, फाफामऊ, तहसील-सोरांव, जिला-प्रयागराज क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर का भूखण्ड निम्न नियमानुसार प्रथमपक्ष/अनुबन्धकर्ता के पक्ष में हुआ था, तत्पश्चात् इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, प्रयागराज (वर्तमान प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज) द्वारा उपरोक्त भूखण्ड का पंजीकृत फ्री-होल्ड विलेख प्रथमपक्ष/अनुबन्धकर्ता के पक्ष निष्पादित कर दिया गया, जिसका पंजीकरण उपनिबन्धक सोरांव, प्रयागराज के कार्यालय में दिनांक 11.02.2011 क्रमांक 522 पर अंकित है। इस प्रकार से प्रथमपक्ष/अनुबन्धकर्ता उपरोक्त के मालिक काबिज व दखील है तथा प्रथमपक्ष/अनुबन्धकर्ता का नाम सरकारी/नगर निगम के अभिलेखों में बतौर स्वामी अंकित है। सम्पत्ति उपरोक्त हर तरह के बार से पाक व साफ है न तो किसी सरकारी या गैर सरकारी वित्तीय संस्था में बंधक है और न ही कहीं जमानत में दी गई है। प्रथमपक्ष/अनुबन्धकर्ता द्वारा इसके पूर्व कोई मुख्तारनामा, इकरारनामा व विक्रय विलेख का निष्पादन किसी भी व्यक्ति/संस्था के पक्ष में



पि० ३०८
अजय कुमार
श्रीवास्तव



Shalini

Shalini

प्रथमपक्ष/अनुबन्धकर्ता द्वारा नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त सम्पत्ति को प्रथमपक्ष/अनुबन्धकर्ता को विक्रय करने का पूरा अधिकार प्राप्त है।

चूँकि प्रथमपक्ष/अनुबन्धकर्ता को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रूपयों की आवश्यकता है अतः प्रथमपक्ष/अनुबन्धकर्ता ने सम्पत्ति उपरोक्त को विक्रय करने की चर्चा आम लोगों में किया प्रथमपक्ष/अनुबन्धकर्ता के इस इरादे की खबर पर द्वितीयपक्ष/अनुबन्धग्रहीता सम्पत्ति उपरोक्त को मुबलिंग 47,00,000/- रूपया (सैतालिस लाख रूपया) में क्रय करने को तैयार हैं जो विक्रीत सम्पत्ति की उचित बाजार कीमत है और इससे ज्यादा कोई अन्य व्यक्ति देने को तैयार नहीं है। लिहाजा मुझ प्रथमपक्ष/अनुबन्धकर्ता खूब सोच समझकर अपने स्वस्थ मन एवं मस्तिष्क की स्थिति में बिला किसी जोर दबाव के उपरोक्त सम्पत्ति, जिसका सम्पूर्ण विवरण अन्त में अंकित है, बदस्त व बहक द्वितीयपक्ष/अनुबन्धग्रहीता श्रीमती शालिनी पत्नी सुभाष चन्द्र मौर्य निवासिनी जे-13, जूही कालोनी, म्योर रोड, परगना व तहसील-सदर, जिला-प्रयागराज, को बएवज मु0 47,00,000/- रूपया (सैतालिस लाख रूपया) के बदले में बेचने का इकरार बय निम्नलिखित शर्तों के साथ लिखते हैं:-

1. यह कि इकरारशुदा की तयशुदा कीमत मु0 47,00,000/- रूपया (सैतालिस लाख रूपया) उभयपक्ष को स्वीकार है।
 2. यह कि तयशुदा विक्रय प्रतिफल मु0 47,00,000/- रूपया (सैतालिस लाख रूपया) में से मुबलिंग 5,00,000/- रूपया (पांच लाख रूपया) द्वितीयपक्ष/अनुबन्धग्रहीता ने प्रथमपक्ष/अनुबन्धकर्ता को निम्न प्रकार अदा कर दिया:-
(क) मु0 5,00,000/- रूपया द्वारा चेक संख्या-313675 एस0बी0आई0 कर्नलगंज, इलाहाबाद (प्रयागराज)।
 3. यह कि उपरोक्तानुसार मुबलिंग 5,00,000/- रूपया (पांच लाख रूपया) द्वितीयपक्ष/अनुबन्धग्रहीता ने प्रथमपक्ष/अनुबन्धकर्ता को अग्रिम तौर पर अदा कर दिया। जिसका पाना प्रथमपक्ष/अनुबन्धकर्ता इस लेखपत्र के माध्यम से स्वीकार करते हैं।
 4. यह कि शेष मु0 42,00,000/- रूपया (बयालिस लाख रूपया) द्वितीयपक्ष/अनुबन्धग्रहीता बरवक्त रजिस्ट्री बैनामा द्वितीयपक्ष, प्रथमपक्ष को अदा करेगी।
- यह कि सभी विधिक औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् 90 (नब्बे) दिन के अन्दर शेष रकम प्राप्त करके प्रथमपक्ष/अनुबन्धकर्ता सम्पत्ति उपरोक्त का बयनामा द्वितीयपक्ष/अनुबन्धग्रहीता या उसके द्वारा नामित व्यक्ति/संस्था के पक्ष में कर देगें, यदि प्रथमपक्ष/अनुबन्धकर्ता बैनामा करने में हीला-हवाली करते हैं तो



(Signature)
श्रीमती
शालिनी
मौर्य

Shalini

द्वितीयपक्ष/अनुबन्धग्रहीता को अधिकार होगा कि वह तयशुदा विक्रय प्रतिफल की शेष धनराशि अदालत में जमाकर जरिये अदालत बैनामा करा लेवे।

6. यह कि कब्जा व दखल बरवक्त रजिस्ट्री बैनामा दिया जायेगा।
7. यह कि बैनामा का खर्चा द्वितीयपक्ष/अनुबन्धग्रहीता वहन करेगी।
8. यह कि इस अनुबन्ध विलेख की पाबन्दी हम उभयपक्ष व हमारे वारिसान व कायम मुकामान पर भी होगी।

लिहाजा यह अनुबन्ध विलेख खूब सोंच समझकर बिना किसी नाजायज डर व दबाव के स्वस्थ चित्त मन मस्तिष्क की दशा में प्रथमपक्ष/अनुबन्धकर्ता ने द्वितीयपक्ष/अनुबन्धग्रहीता के पक्ष में लिख दिया कि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

विवरण सम्पत्ति जिसके बावत यह इकरारनामा बिला कब्जा लिखा गया

भूखण्ड संख्या डी0-251, सेक्टर-डी0 शान्तिपुरम् आवास योजना, फाफामऊ, तहसील-सोरांव, जिला-प्रयागराज क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर, जो खुली भूमि की शक्ल में है, के विक्रय का बावत अनुबन्ध किया, जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है:-

चौहद्दी:-

पूरब -	भूखण्ड संख्या डी0-252
पश्चिम -	भूखण्ड संख्या डी0-250
उत्तर -	भूखण्ड संख्या डी0-235 एवं 236
दक्षिण -	9.00 मीटर चौड़ी सड़क



दिनांक:-

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष/अनुबन्धकर्ता

Shalini
हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष/अनुबन्धग्रहीता

गवाह संख्या-1

श्यामजी सोरव, शान्तिपुरम् मालोत्री

गवाह संख्या-2

विनोद कुमार गुप्ता
6.7.21
Ghanshyam Pathak
Public Notary Govt. of India
Police Const Room
Civil Lines
District Court, Prayagraj
(M) 9929371585

This documents has been presented before me
on.....A.M./P.M. at my
office at Allahabad the document is/are dully
identified by Shn.....
Advocate the contents of the documents have
been explained in the executed was admit the
to be correct
hence the document is Attested

G. S. Pathak
Public Notary
Mtd. Prayagraj (U.P.)

FORM - C (PROPERTY & LOAN DETAILS)

Scheme Name SBI Max Gain SBI Yuva Home Loan SBI Pre-Approved Home Loan SBI NRH Housing Loan SBI Realty Home Loan SBI Home Equity Other Scheme

Property Details

Builder Tie-up Available Yes No If Yes, then please provide Builder Project Tie-up ID _____

Property Type Free Hold Lease Hold

Builder Name _____ Project Name _____

Building Name/Number _____ Wing Name _____

Build up Area (Sq Ft) _____ Plot Area (Sq Ft) _____ Plot Area (Sq Ft) _____

Boundaries (Sq Ft) _____ Undivided share of land (for flats to 'g) Survey No. _____

Plot / Flat No. _____ TDC/CCY No. _____ Block No. _____

Name of Seller _____ Registered Owner _____

Seller's Address 1 _____

Seller's Address 2 _____

Landline / Mobile _____ Fair Market Value _____ Guarantee Tenure (Months) _____

Guarantee Amount _____ Fair Market Value _____ Guarantee Tenure (Months) _____

Architect _____ Contractor _____

Address of Property

Address of Property 1 _____

Address of Property 2 _____

Landmark _____

City _____ District _____ Pin Code _____

State _____ Country _____

Loan Details

Cost of property (Project Cost) _____ Down payment (amount) _____ Down payment % _____

Loan Amount _____ Repayment Monthly Bi-Monthly Quarterly Annually Tenure (Months) _____

Loan Purpose

New House Construction Purchase of New House Purchase of Old House Purchase of Plot of Land

Purchase of New Flat Purchase of Resale Plot Purchase of New House Repairs and Renovation

Home Extension Balance Transfer from other Bank Reimbursement of expenditure incurred in past 12 months.

Fixed Rate Floating Rate Moratorium Period (Months) _____ Whether interest to be Capitalized during Moratorium Period Yes No

Home Loan Linked Life Insurance Policy

For your benefit and convenience, the following group insurance plans underwritten plan underwritten by SBI Life Insurance Company Ltd is available for your consideration. If you opt for cover SBI would administer your enrollment for the chosen plan. Please note that this insurance cover is optional for the purpose of the loan application and may also be obtained from other providers

SBI Life Rishi Raksha Policy - RRP is a group mortgage reducing term life insurance policy underwritten by the SBI Life Insurance Company Limited, which covers you against death and/or disability (as defined in the policy) to protect your dependants from the liability of the loan outstanding. The policy covers the outstanding loan balance for the entire tenor of the loan for up-front premium payable in 5 yearly instalment.

SBI Life Saral Shield Policy (available for loan limit below Rs.25 Lacs, subject to minimum loan limit of Rs.7.5 lacs) - This is an individual reducing term insurance policy underwritten by the SBI Life Insurance Company Limited, which covers you against death and/or disability (as defined in the policy) to protect your dependants from the liability of the loan outstanding. The policy covers the outstanding loan balance for the entire tenor of the loan for an up-front one time premium.

Life Smart Shield Policy (available for loan limit of Rs. 25 lacs & above) - This is an individual reducing term insurance policy the SBI Life Saral Shield for customers with limit of Rs. 25 Lacs and above.

Do you wish to be covered by Home Loan Insurance (Life Cover e.g. SBI Life)?

Yes No

If yes, I will opt for SBI Life Rishi Raksha Policy SBI Life Saral Shield Policy SBI Life Smart Shield Policy

Whether one time premium will be paid by you or you would like to add the premium to the home loan?

I will pay the premium Please add the premium to the home loan amount mentioned above.

_____ Signature of Applicant

_____ Signature of Co-Applicant

_____ Signature of Guarantor

DECLARATION

I/We certify that the information provided by me/us in this application form is true and correct in all respects and State Bank of India is entitled to verify the same directly or through any third party agent. I/We confirm that the attached copies of financials/Bank Statements/Title/Legal documents etc. are submitted by me/us against my/our loan application and certify that these are true copies. I/We further acknowledge the Bank's right to seek any information from any other source in this regard. I/We understand that all the above mentioned information shall form the basis of any facility that the Bank may decide to grant to me/us at its sole discretion.

I/We further agree that any facility that may be provided to me/us shall be governed by the rules of the Bank that may be in force from time to time. I/We will be bound by the terms and conditions of the facilities that may be granted to me/us. I/We authorize the Bank to debit my home loan account with the Bank for any fees, charges, interest etc. as may be applicable.

I/We undertake and declare that I/we will comply with the Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) and the applicable rules, regulations, notifications, directions or orders made there under and any amendments thereof. I/We undertake to intimate the Bank before proceeding overseas on permanent employment and/or engaging and/or changing my/our nationality.

I/We acknowledge that the Bank remains entitled to assign any activities to any third party agency at its sole discretion. I/We further acknowledge the right of the Bank to provide details of my/our account to third party agencies for the purpose of availing support services of any nature by the Bank, without any specific consent or authorization from me/us.

I/We acknowledge that the existence of this account and details thereof (including details of transactions and any defaults committed by me) will be recorded with credit reference agencies and such information (including processed information) may be shared with banks/financial institutions and other credit granters for the purposes of assessing further applications for credit by me/us and/or members of my/our household, and for occasional debt tracing and fraud prevention. I/We accordingly authorize the Bank to share information relating to my/our home loan account.

I/We understand that as a precondition, relating to grant of loans/advances/other non-fund-based credit facilities to me/us, State Bank of India requires consent for the disclosure by the Bank, of information and data relating to me/us, of the credit facility availed of to be availed of by me/us, obligation assumed to be assumed by me/us, in relation thereto and default, if any, committed by me/us in discharge thereof.

1. Accordingly, I/we hereby agree and give consent for the disclosure by the Bank of all or any such; (a) information and data relating to me/us (b) the information or data relating to any credit facility availed of to be availed of by me/us and (c) default, if any, committed by me/us in discharge of my/our such obligation, as the Bank may deem appropriate and necessary, to Credit Information Bureau (India) Limited (CIBIL) and any other agency authorised in this behalf by Reserve Bank of India/Government of India

2. I/We undertake that (a) CIBIL and any other agency so authorised may use, process the said information and data disclosed by the Bank, and (b) CIBIL and any other agency so authorised may furnish for consideration, the processed information and data or products thereof prepared by them, to banks/financial institutions and other credit granters, as may be specified by the Reserve Bank in this behalf.

I/We agree to receive SMS alerts/Phone calls related to my/our application status and account activity as well as product use messages/calls that the Bank will send/ make, from time to time, on my/our mobile/phone number (s) as mentioned in this application form. I/We undertake to intimate the Bank in the event of any change in my/our mobile phone number and residential address.

I/We further acknowledge that I/We have read, understood and agree with the Most Important Terms and Conditions governing the home loan product chosen by me/us.

Signature of Applicant: Shalini

Signature of Co Applicant

Signature of Guarantor

Place: Date:

Place: Date:

Place: Date:



ACKNOWLEDGEMENT RECEIPT

Customer Copy

Form with fields for Loan application received on, complete documents received on, Cheques received towards payment of Processing Fee, Valuation Fee and Legal Fee amounting to Rs, and draw in favour of 'State Bank of India' and payable at.

Authorized Signatory

FORM-B (EMPLOYMENT & INCOME DETAILS) (HOUSE MAKER)

CO-APPLICANT

Salaried Individual
 Nature of Occupation Colonel Businessman / Self Employed Professional Pensioner
 Employer Name _____ Employment Status Regular Retentory Contract
 Total Experience _____ Yrs _____ Months Years in Present Job _____ Yrs _____ Months Years in Previous Job (If Applicable) _____ Yrs _____ Months
 Previous Employer's Name _____ Contact Number _____
 Previous Employer's Address _____ Current Industry _____
 Organization Type Public Sector Unit Listed Private Company Unlisted Private Company MNC Central/State Government Local Civic Body
 Department _____ Designation _____
 Employee No. _____ Remaining Service Yrs _____ Months
 Website _____

Businessman / Self Employed
 Nature of Business Manufacturing Company Services Company Trading Company Trading Firm Other
 Business Name _____
 Trade License No. _____ Industry _____
 Trade License Expiry Date _____
 Name of PDA Holder _____ Type of Ownership Single Joint No. of Partners _____
 Share holding (%) _____

Income / Financial Details

Income Head	Gross Income	Net Income	Frequency	How often you paid

Obligation / Deduction Details

Obligation Head	Gross Obligations	Net Obligations	Frequency	Remarks

Existing Loans (If Any)

Bank / Financial	Type of Loan	EMI	Tenure of the Loan	No. of EMIs Paid	Outstanding Balance

Bank Accounts Held

Bank Name	Branch	Account Type	Account Number	Account held for (Years)

CR Cards

Card Number	Issuer Name	Primary / Supplementary	Outstanding Balance	Remarks

Deposits

FD Number	Amount	Rate	Maturity Date (dd/mm/yyyy)	Bank Name

Invest Assets (Stocks, Mutual Fund, Other Investments, Precious metals / Gold / Jewels, Immovable Property etc)

Asset Type	Asset Description	Asset No.	Asset Value	Remarks

 Signature of Applicant / Co-applicant / Guarantor
 Date: _____

FORM 3 EMPLOYMENT & INCOME DETAILS

Salaried Businessman / Self Employed Professional Pensioner

Nature of Occupation: _____

Employer Name: _____

Total Experience: Yrs Months Years in Present Job: Yrs Months Years in Previous Job (if Applicable): Yrs Months

Previous Employer's Name: _____

Previous Employer's Address: _____

Organization Type: Public Sector Unit Listed Private Company Unlisted Private Company MNC Central/State Government Local Govt. Body

Department: _____

Employee No.: _____

Website: _____

Businessmen / Self Employed Professions

Nature of Business: Manufacturing Company Services Company Trading Company Trading Firm Other _____

Business Name: _____

Trade License No.: _____ Trade License Expiry Date: _____

Name of PDA Holder: _____

Type of Ownership: Single Joint No. of Partners: _____

Income / Financial Details

Income Head	Gross Income	Net Income	Frequency	Remarks

Obligation / Deduction Details

Obligation Head	Gross Obligations	Net Obligations	Frequency	Remarks

Existing Loans (if Any)

Bank / Financial	Type of Loan	EMI	Tenure of the Loan	No. of EMIs Paid	Outstanding Balance
— NIL —					

Bank Accounts Held

Bank Name	Branch	Account Type	Account Number	Account held for
PNB	Colonygry Dr	Savings	1001000100622407	4 yrs

Credit Cards

Card Number	Issuer Name	Primary / Supplementary	Outstanding Balance	Remarks

Fixed Deposits

FD Number	Amount	Rate	Maturity Date (dd/mm/yyyy)	Bank Name

Other Current Assets (Bonds, Shares, Mutual Fund, Other Investments, Precious metals, Gold, Jewellery, Immovable Property etc)

Asset Type	Asset Description	Asset No.	Asset Value	Remarks
Gold	SBT Life		Rs. 6 lacs	
			Rs. 10 lacs	

Name: _____ Date: _____

Signature of Applicant / CoApplicant / Guardian: *Shalini*



इलाहाबाद विकास प्रायोजन

Annexure. 3

भवन/भूखण्ड का कब्जा प्रमाण-पत्र

जोनल अधिकारी के पत्र संख्या जोनल अधिकारी के आदेश दिनांक 8/7/2011
के आधार पर शान्तिपुरम आवास योजना का फार्म 3, इलाहाबाद योजना के सेक्टर 3
भवन/भूखण्ड अतिरिक्त 16.2.50.12.1.Plot No. 251 अन्य वर्गीय उच्च/मध्यम/निम्न अल्प/
दुकान भूखण्ड सं. 251 का कब्जा दिनांक 8/7/2011 को आवंटी
श्री/श्रीमती अजय कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व. जगतपाल की संतोषजनक स्थिति में दिया गया।

दिशा	चौहद्दी	माप मी0 में	अतिरिक्त भूमि की मापे
पूर्व	<u>भूखण्ड सं. 252</u>	18.00 मीटर	
पश्चिम	<u>भूखण्ड सं. 250</u>	18.00 मीटर	
उत्तर	<u>भूखण्ड सं. 235 एवं 236</u>	9.00 मीटर	
दक्षिण	<u>9.00 मीटर चौड़ी सड़क</u>	9.00 मीटर	
भूखण्ड का क्षेत्रफल <u>16.2.00</u> वर्गमीटर			अतिरिक्त भूमि का क्षेत्रफल वर्गमीटर में

(ख) भवन में लगी फिटिंग का विवरण :-

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. डब्लू.सी. सीट/सिस्टर्न सहित | 11. मेन स्विच |
| 2. वाश बेसिन | 12. बेल प्वाइंट |
| 3. सिंक | 13. प्लग प्वाइंट |
| 4. शीशा | 14. लाइट प्वाइंट |
| 5. टावल राड | 15. फैन प्वाइंट |
| 6. सो डिश | 16. पावर प्वाइंट |
| 7. वाटर टैंक | 17. |
| 8. शावर | 18. |
| 9. टोटी | 19. |
| 10. वाल्व | 20. |

कब्जा देने वाले अवर अभियन्ता के हस्ताक्षर

Om
(अवर अभियन्ता का नाम)

सहायक अभियन्ता

कब्जा प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर

अजय कुमार श्रीवास्तव
(आवंटी का नाम व पता)

T-III/3, एं. बी. कालोनी,
मेलियरगंज, इलाहाबाद-211004

Om
8/7/11
प्रतिहस्ताक्षरित

अधिशायी अभियन्ता

Generally used abbreviations

a/c	= Account	dep	= Deposit	Pr	= Principal
adj	= Adjustment	Dft	= Draft	proc	= Processing Charge
Amt	= Amount	dish/dsh	= Dishonour	rd	= Recurring Deposit
Ar	= Arrear	DR	= Debit	ret/rtn	= Return
bal	= Balance	DoB	= Date of Birth	Rnd	= Round of
Capn	= Capitalization	eft	= Electronic Fund Transfer	sb	= Savings Bank
chg/ch	= Charge	Inop	= Inoperative	SC	= Short Credit
chq	= Cheque	ins	= Insurance	SI/So/SORD	= Standing Instruction
Clos	= Closure	int/in	= Interest	S/D/W/H/o	= Son/Daughter/Wife/Husband of
coll	= Collection	lon/Ln	= Loan	tr/trf/xfer	= Transfer
comm	= Commission	min	= Minimum	TT	= Telegraphic Transfer
COR/CORR	= Correction	os	= Outstanding	txn	= Transaction
CR	= Credit	P & T	= Postage & Telegram	Wdl	= Withdrawal
csh	= Cash	Pos	= Point of Sale	+MOD bal	= total balance (SB+linked MOD a/c)

भारतीय स्टेट बैंक

Branch: TRIVIPURWAH, ALLAHABAD
04 KUTCHERY, ALLAHABAD

Code: 17614

State Bank of India

Email: sbi.17614@sbi.co.in
Phone No.: 2266813
IFSC: SBIN0017614

Bus. Hrs: 10:00:00-16:00:00
MICR: 211002082

Name: SHALINI

S/D/H/o : SAHABDIN MAURYA

IF Number : 80762437254

Account No.: 10946450927

A/c Type : REGULAR SB CHO-INDIVIDUALS

Address : 417 CHANDPUR SALORY

SHIVKUTI

ALLAHABAD

Phone No. : 0

Email : shalinidg@gmail.com

D.O.B. (If Minor):

PO Number :

MOP: SINGLE

A/c Opening Dt: 12/07/2006

Nom Reg No:

Customer's PAN: BJKPS64146



Date of Issue: 19/02/2020

CONTINUATION

शाखा प्रबन्धक
Branch Manager

Handwritten text at the top left of the page.

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT	CREDIT	BALANCE
05.02.21	NEFT U000000842511752 RBISOMBPA04 Sovereign Gold B			428.86	2077.78Cr
05.02.21	CHQ TRFR FROM 010183936524 OF Mr. SHIV KUMAR MAURYA AT 01583 COLONELGANJ (ALLAHABAD)	548954		1300047.20	1302124.98Cr
Uncl Bal: 0.00 Clr Bal: 1302124.98 Cr; +MOD BAL: 0.00					



कार्यालय, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज
खरखंड, प्रतापगढ़

प्रमाणित किया जाता है कि इस संज्ञा में
कार्यरत श्रीमती शालिनी, प्रकला भूगोल का कार्यालय अभिलेख
के अनुसार दिसम्बर 2020, जनवरी 2021 एवं फरवरी 2021
का वेतन निम्नवत है:-

	दिसम्बर 2020	जनवरी, 2021	फरवरी 2021
वेतन	73,200/-	73,200/-	73,200/-
महंगाई	12,444/-	12,444/-	12,444/-
अन्य	2,100/-	2,100/-	2,100/-
सम्पूर्ण योग	87,744/-	87,744/-	87,744/-
कटौती	10,264/-	10,264/-	72,984/-
देय धनराशि	77,480/-	77,480/-	14,760/-

श्रीमती पुनम श्रीवास्तव
प्रधानाचार्य
राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज
खरखंड, प्रतापगढ़

PRINCIPAL
GOVT. GIRLS INTER COLLEGE
KHARAKHAND, PRATAAPGARH